

Date: 19-02-2024

The Secretary	The Secretary	
Listing Department	Listing Department	
BSE Limited	National Stock Exchange of India Limited	
PJ Towers, Dalal Street,	Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block,	
Mumbai - 400 001	Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai	
Script Code: 532696	400051	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Script Code: EDUCOMP	

Sub: Copies of Newspaper Advertisement – Prior Information of 29th Annual General Meeting (AGM) to be held through Video Conferencing (VC) I Other Audio Visual Means (OAVM)

Dear Sir / Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder read in accordance with the relevant circulars issued by the ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India, please find enclosed herewith copies of the Newspaper Advertisements published by the Company in the newspapers i.e. Business Standard (English Language) and Business Standard ((Hindi Regional Language) on February 19, 2024. The advertisement is in regard to intimation of 29th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on March 15, 2024, through VC / OAVM.

The above may please be treated in compliance of Regulation 47 and Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with Part A of Schedule III of the said Regulations.

This is for your information and records.

Thanking You, Yours Truly,

For Educomp Solutions Lin

Mahender Khandelwal

Caretaker Resolution Professional in the matter of Educomp Solutions Limited

Email: [mkipeducomp@bdo.in]

IBBI Registration No.: [IBBI/IPA-001/IP-P00033/2016-17/ 10086]

Note: As informed earlier also vide various communications, had ordered the commencement of CIRP in respect of the Company under the provisions of Code. Thereafter, in accordance with Section 17 of the Code, the powers of the Board stood suspended and Dr. Sanjeev Aggarwal was appointed as interim resolution professional of the Company. The IRP carried out his duties from May 30, 2017 till Mr. Mahender Khandelwal was appointed as Resolution Professional ("RP") vide the order of NCLT dated September 12, 2017 and took over the management of the affairs of the Company. On 9th October, 2023 the resolution plan is approved by the NCLT which is yet to be implemented. Thereafter, on November 23, 2023 the NCLT has ordered that the RP would act as caretaker qua the CD and in such capacity, he would discharge all those functions as are required to be discharged by an IP as RP.

Educomp Solutions Limited (CIN: L74999DL1994PLC061353)

Corporate office: 514, Udyog Vihar, Phase III, Gurgaon – 122001, Haryana (INDIA). Tel.: 91-124-4529000.

Registered Office: L-314 (Ground and First floor), Gali No.7, Mahipalpur, New Delhi-110037.

Web site www.educomp.com; email: investor.services@educomp.com

Doctor liable to penalty for causing disability

The National Commission

observed that evidence

was conducting private

Primary Health Centre,

practice while employed

indicated Dr Gupta

with a government

serious misconduct

which was a



CONSUMER PROTECTION

JEHANGIR B GAI

Ajeet Kumar, an 11-year-old 8th grader, broke his hand on December 29, 2003. When taken to Dr Anirudh Prasad Gupta's private clinic in Rasara, the doctor was found to be unavailable. The staff directed him to a hospital in Mau where Dr Gupta practised. Kumar received treatment there and his hand was cast in plaster. He stayed in the hospital until January 18, 2004, paying around ₹10,000 to Dr Gupta. After being discharged, Kumar visited Dr

Gupta at the Mau hospital for follow-ups, spending an additional ₹6,000 on treatment.

As the boy's condition deteriorated, the father requested a referral to a hospital in Varanasi for treatment, but his request went unheeded until an MLA

referred the child to Dr A K Roy at Shyama Hospital, where he was informed that an amputation would have to be performed to save the child's life. He had to pay ₹10,000 upfront after which the amputation was performed. He incurred an additional ₹5,000 on treatment.

Later, Kumar filed a joint complaint against Dr Anirudha Gupta and the Chief Medical Officer (CMO) of the Uttar Pradesh government's Primary Health Centre (PHC). This consumer complaint was filed through his natural guardian and father, Janul Ram. It was alleged that Dr Gupta was supposed to be serving as a medical officer at the PHC but he was carrying on private practice and diverting patients for his personal gain. It was also alleged that Dr Gupta had been negligent in treating the child, due to which ampua permanent handicap. A total compensation of ₹4.2 lakh was claimed under various heads.

Dr Gupta contested the complaint. He refuted the allegation that he was carrying on private practice in Rasara as well as Mau. He disputed the authenticity of some documents such as the receipts which were produced to show that he had treated the child. He even denied being aware of the incident or injury to the child. The PHC did not bother to contest

the complaint. After considering the rival contentions, the District Forum allowed the complaint on June 15, 2010, ordering Dr Gupta to pay ₹30,000 towards refund of fees and expenses, ₹50,000 for causing 65 per cent physical disability as certified by the competent authority, the CMO, ₹17,000 towards mental harassment, and ₹3,000 towards the cost of the case. A period of 60 days was given for compliance. A delay would attract 12 per cent interest.

Dr Gupta challenged this order before

the Uttar Pradesh State Commission, which observed that there was no enmity or other reason for blaming Dr Gupta for a genuine incident. It observed that the reasoning given was sound in law and logic and dismissed the appeal.

Dr Gupta then filed from Chilkahar intervened. Dr Gupta then a revision petition. The National Commission noted that the evidence showed Dr Gupta was employed by the government at the Primary Health Centre. It also observed that handwritten documents such as prescriptions which had been written by Dr Gupta for other private patients had not been disputed. The National Commission agreed that this constituted a serious act of misconduct.

The National Commission also relied on the judgement of the Supreme Court in Rubi (Chandra) Dutta vs United India Insurance Co that concurrent finding of fact cannot be challenged in revision proceedings. Accordingly, by its order of February 7, 2024, delivered by J. Rajendra, the National Commission dismissed Dr Gupta's petition and upheld the decision given in the patient's favour.

tation had become necessary, leading to Thewriterisa consumer activist

Diversify across borrower profiles when lending on a P2P platform

Restrict lending on these platforms to a portion of your high-risk fixed-income allocation

KARTHIK JEROME

¬he Reserve Bank of India (RBI) deputy governor, M Rajeshwar Rao, recently flagged off the risks of lending on peer-to-peer (P2P) platforms at an NBFC (non-banking financial company) summit organised by the Confederation of Indian Industry (CII).

"A large proportion of lenders on NBFC-P2P platforms are individuals. They are not well equipped to understand the risks involved in providing credit. Instead of educating the lenders about the inherent risks in the lending activity, NBFC-P2Ps have been observed to underplay the risks through various means, such as promising high or assured returns, structuring transactions, and providing anytime fund recall facilities," he said.

High return potential

P2P platforms offer lenders the lend to 100 borrowers and any opportunity to earn returns number of them could higher than those offered by traditional fixed-income investments. "It is one of the few fixed-income investments where you can earn a return of around 9-13 per cent on an average," says Bhuvan Rustagi, co-founder and chief operating officer, Lendbox, a P2P platform. Returns can go higher if lenders select higherrisk borrowers.

P2P platforms disintermediate the financial intermediaries (banks or NBFCs) and connect lenders and borrowers directly. "By bypassing the intermediaries, we are able to offer a higher return to lenders," says Neha Juneja, chief executive officer, India P2P.

flows. They also enjoy control. to access formal banking. In from new lenders to provide



"They can decide whom they lend to," says Rustagi. Access to a diversified borrower base also helps to control risk

Beware of default risk

The main risk lenders face on these platforms is of borrowers defaulting. "You could default, risking even your principal," says Rustagi.

Do not regard lending on a P2P platform as akin to opening a fixed deposit. "P2P-NBFCs are not deposit-taking institutions, which are subject stricter compliances. Deposit-raising NBFCs, for instance, need to get ratings done. The risks are significantly higher on these platforms," says Vishal Dhawan, chief financial planner, Plan Ahead Wealth Advisors.

Loans on these platforms are not protected by deposit insurance coverage.

Borrower quality can at times present a risk. "Many borrowers turn to these plat-Lenders get monthly cash forms because they find it hard

the event of a serious economic downturn, many default," says Dhawan.

Arnav Pandya, founder, Moneyeduschool, points out that risk also arises from most of these loans being unsecured. The way platforms source

borrowers could also pose a risk. Suppose that money lent on a platform goes into funding loans for the purchase of a consumer durable product. If, say, the product performs badly, many of these borrowers could stop paying their EMIs at the same time. "In such a case, the risks would get accentuated because of the borrower base not being adequately diversified," says Dhawan.

The promise of instant liquidity can also create risks. If a large number of borrowers exercise this facility simultaneously during stressful times, a platform would not be able to meet its promise. P2P platforms are not allowed to have liquid reserves of their own. The promise of instant liquidity can potentially give rise to malpractices, like using inflows

borrowers, review the ratings

liquidity to existing lenders.

CRITERIA FOR

BORROWERS

PICKING RIGHT

■ Go with a platform that

provides comprehensive

■ Verify borrower credit

score, average income,

the Fixed Obligation to

■ Look out for negative

■ If the platform rates

Income Ratio (FOIR)

PIN codes

employment history, and

information on borrowers

Lock-in and withdrawal norms

The better-run platforms offer products with lock-in periods after which you can withdraw money. Withdrawal during the loan tenure depends on several factors and is not guaranteed. Performing loans are listed on the secondary market. You can withdraw if there is a buyer for your portfolio, "To withdraw, another lender must be willing to buy your loan portfolio, providing you with liquidity," says Rustagi. It is best to not regard P2P as a liquid product.

Steps to mitigate risk

The first should be diversification: spread investments across a number of borrowers. The RBI imposes a limit: a lender cannot put more than ₹50,000 in a single loan. "It's advisable for a lender to invest even less per loan and maximise diversification," says Rustagi.

Select borrowers who align with your risk appetite. Most platforms tend to focus on certain types of borrower seg-

ments so that they can underwrite them in a focused way. "Check whether your capital will go towards loans to merchants, women borrowers, BNPL (buy now pay later) loans, and so on as different borrower categories tend to have different default profiles," says Juneja. She adds that lenders should check the default rates of that set of borrowers and how they have changed over the past few years.

"Return guarantees and the promise of very high rates should act as red flags," says Pandya. He adds that one should avoid lending for very long periods as doing so also increases risk.

Checks to run on the platform

Ensure that the platform is RBI-registered. "It must have a licence to do P2P lending, says Pandya.

The RBI requires platforms to maintain a net worth of ₹2 crore. Ensure that the platform adheres to this norm and is in strong financial health. Additionally, verify that the platform's technology infrastructure meets the necessary standards, and is capable of managing high transaction volumes.

Lenders should review the platform's portfolio performance. All platforms are obliged to present their gross NPA (non-performing assets) numbers. Finally, P2P lending should

be a part of the high-risk bucket within your fixed-income portfolio, including credit risk funds, low-rated bonds, etc. 'This high-risk bucket itself should not exceed 10-20 per cent of your overall fixedincome portfolio, depending on your risk profile," says Dhawan.

LOST AND FOUND

Documents file related to FLAT NO. 302, TOWER-I, SUN SHINE COUNTY, SONEPAT (HARYANA) which includes Application, Allotment Letter, All payment receipts, Possession Letter, No dues Letter and other related paper of the said Flat IN THE NAME OF RITA SHARMA R/O 724/387, MULTANI CHOWK HISSAR has been lost during travelling to Subhash Nagar, New Delhi

PUBLIC NOTICE

This is for notice of the general public that political party is proposed to be registered b e name of **Liberation Congress**. The office of the party is located at Prathuru, Gundimed Village, Tadepalli Mandal, Guntur District Andhra Pradesh, PIN:. The Party has submitted application to the Election Commission of India, New Delhi for its registration as Political Party under section 29A of the Representation of People Act 1951. Names / addresses of the office bearers of the party are as follows.

National President: Vijay Kumar G.Srkr, Fla No: 505, F-Block. Vajra Residency, Nea Manipal Hospital, Tadepalli, Guntur District Andhra Pradesh. 522501. General Secretary: Isaiah Kumar Dande

hettunnaPadu (V), Bhimadole Mandal, Eluru District, Andhra Pradesh. reasurer: Venkateswara Rao Jalla, 61-13-2 Krishna Veni Road, Ramalingeswara Nagar Vijayawada, Andhra Pradesh

f anyone has any objection to the registration of Liberation Congress they may send their bjection with reasons thereof, to the Secretar Political Party), Election Commission of India Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delh 11 0001 within 30 days of the publication of this

BEFORE THE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL AT BENGALURU (SCCH-12)

NOTICE TO RESPONDENT No. 1 Gaurav Bhola, No. 2233, Upper Ground Flooi Raja Park, Rani Bagh North West, Delhi - 110034 New Delhi-110034

Take notice that the petitioners have filed the above petition against you, claiming compensation of Rs. 45,00,000/- for having death of 6. Madhu in a Road Traffic Accident, which occurred on 24,6.2023 at about 9,40 M. DNAGHIGHER DEAT SIZEN HE SMICE. A.M., ON Kodikonda Check Post - Sira NH-544(a) Road, Chilamathur Mandal, involving you Fortunar Car bearing Reg. No. DL-3C-BD-6494. Hence you are hereby directed to present before this Hon'ble Court on 20.03.2024 at 11.00 A.M. personally or through a pleader duly instructed by you, failing which the matter will be heard in your absence, placing you Exparte

By order of the Court, Assistant Registrar

Court of Small Causes, Banga Advocate for Petitioner K.G. Siddalingegowda, Advocate No.2, 2nd Floor, Mourya Mansion Building, 1st Main, 1st Cross, Gandhinagar, Bangalore - 560009.

GENERAL PUBLIC NOTICE

This is information of all concerned that the Fortis Escorts Heart Institute (Escorts Heart Institute & Research Centre Limited) Okhla Road, New Delhi - 110025 is going to discard (Except Death, MLC, Transplant & Paediatrics) the following records:

A: OUT PATIENT DEPARTMENT (OPD)

1. Inactive medical records since 1st January 2020 to 3rd October 2020 (Amonast UHID NO. 2067849 to 2166883).

B: IN PATIENT DEPARTMENT (IPD)

1. Normal discharge files (Except Death, MLC, Transplant & paediatric cases) since 1st January 2017 to 31st December 2017 (IPD NO. 351216 to

2. Radiology films of expired cases since 1st January 2018 to 31st

All the above medical records, if needed by any patient, legal attendant and agency to preserve the related medical records for future reference, may kindly contact through proper channel at mentioned below address. This notification will be valid for a period of one month from the date of

Note:- All the above medical records will be issued as per rules.

Dr. S.C. Gupta, Head of Department - Medical Records Fortis Escorts Heart Institute, Okhla Road, New Delhi - 110025

ANAND RATHI

Anand Rathi Global Finance Limited Express Zone, A Wing, 8th Floor, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063 India

POSSESSION NOTICE

Vhereas, the Authorized Officer of the Anand Rathi Global Finance Limited, under th ecuritisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securit Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued Demar Notice (details specifically mention in table below, hereinafter Demand Notice) unde ection 13 sub-section 2 of the Securitization And Reconstruction of Financial Assets an Enforcement of Security Interest Act, 2002 calling upon the Borrower(s) (detail specifical) mention in table below, hereinafter Borrower (s) to repay the amount mentioned in the Demand Notice together with further and Future interest thereon at the contractual rat of interest together with costs and charges and other monies payable (if any) from the date of Demand Notice onwards, till the date of payment and/or realization by ARGFL within 60 days from the date.

The Borrower (s) and Co-borrower (s) having failed to repay the Amount Due, this notic s hereby given to the Borrower mentioned herein below in particular and public in genera hat the undersigned has taken Symbolic possession of the properties / Secured Assets (a defined under the Demand Notice) described herein below in exercise of powe conferred upon him/her under sub-section (4) of section 13 of the Securitization An-Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 reac with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on the date specifically

The Borrower and Co-borrower (s) in particular and the public in general is hereb cautioned not to deal with the properties/ the Secured Assets and any dealings with the Properties / secured assets will be subject to the charge of Anand Rathi Global Finance Limited for an **Outstanding Amount** (specifically mentioned herein below) together with urther and future interest thereon at the contractual rate of interest together with cost and charges and other monies payable (if any) till the date of payment and/or realization by ARGFL. The Borrower's attention is invited to the provisions of sub-section (8) o Section 13 of the Act in respect of the time available to redeem the secured assets. Sorrower (s) Name Address: Mr. Sadhu Singh (Borrower), T-31, 1st Floor, Rajouri Garde

Co-borrower(s) Name Address: 1. Mr. Pardip Singh 2. Mrs. Satwant Kaur, T-31, 1st Floo

kajouri Garden, Tagore Garden, Delni - 110027					
Amount Due as per Demand Notice with	ROI	12.25%			
further interest as applicable: Rs. 79,18,345 /-	Principal Outstanding	74,54,042			
(Rupees Seventy Nine Lakhs Eighteen Thousand	EMI Amount Pending	3,73,350			
Three Hundred Forty Five Only)	Broken Period Interest	17,755			
Date of Demand Notice: 11th December, 2023	Legal Charge	16,100			
	Over Due interest	40,578			
Loan Agreement No: APPL00000831	EMI Bounce & Other Charges	16,520			
Date of Possession: 17 th February, 2024	Total outstanding	79,18,345			
Details of Secured Asset: Property Details: Entire First Floor, without Roof/Terrace Rights					

built on Property No. T-31, area admeasuring 213.3/10 sq. yd., situated at Rajouri Garden, Delhi – 110027, bounded as follows:- East:- Property No. T-30, West:- Property No. T-32, North:- Service Lane, South:- Road

Sd/- Anand Rathi Global Finance Limited

PUBLIC NOTICE Address of Authorised Person

inform Kotak Securities Ltd. within 15 days from the date of this notification, failing which it shall be semed that there exists no queries against the above mentioned AP.

Decembed tratturer exists no quientes against the above mentioned AP.

kotak [®] Kotak Securities Limited. Registered Office: 27 BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla No.: +22 43360000, Fax No.: +22 67152430. Website: www.kotak.com / www.kotaksecurities.com / correspondence Address: Infinity IT Park, Bldg, No 21, Opp. Film City Road, A K Vaidya Marg, Malad (East), Mumbai 400097. Telephone No: 42856825. SEBI Registration No: INZ000200137(Member of NSE, BSE, MSE, MCSE, MCC & NCDEX), AMFI ARN 0164, PMS INP00000258 and Research Analyst INH000000586. NSDL/CDSL:: IN-DP-629-2021. Compliance Officer Details: Mr, Hiren Thakkar Call: 022-42858484, or Email: ks.compliance@kotak.com.

Educomp EDUCOMP SOLUTIONS LIMITED

Regd. Office: L - 314 (Ground and First floor), Gali No. - 7, Mahipalpur,

E-mail: investor.services@educomp.com, Website: www.educomp.com

29TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING

NOTICE is hereby given that the 29th Annual General Meeting ('AGM' of the Members of Educomp Solutions Limited ('the Company for financial year 2022-23 will be held on Friday, March 15, 2024 at 11:30 AM through Video Conference facility ('VC')/or Other Audio Visua Means ('OVAM') in compliance with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020, 20/2020 dated April 13, 2020, 02/2022 dated May 05, 2022, 10/2022 dated December 28, 2022 and 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circular') and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 read with SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/ P/2022/62 dated May 13, 2022, Circular No SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIRIP/2021/11 dated 13th January, 2021 and Circular No. SEBI/HO/ CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circular') and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and other applicable laws and the rules made there under.

The Annual Report of the Company for the financial year 2022-23 along with the Notice convening the AGM will be sent in due course only through email to all those Members whose email address is registered the Company/Registrar and Share Transfer Agent ('RTA')/Depository Participants ('DP'), in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circular. The aforesaid documents will also be made available at www.educomp.com, stock exchange websites a www.bseindia.com and www.nseindia.com.

The instruction for attending the meeting through VC/OVAM and the manner of participation in the remote e-voting or casting vote at the AGM through e-voting is provided in the Notice convening the AGM. The Notice also contains the instructions with regard to login credentials for shareholders, holding shares in physical form or in electronic form, who have not registered their email address either with the Company or their respective DP.

Members participating through VC/OVAM facility shall be counted for the purpose of quorum u/s 103 of the Companies Act, 2013.

Members holding shares in physical form and who have not registered their email ids/bank account details, are requested to visit https://web.linkintime.co.in/KYC/index.html, portal of Link Intime India Pvt. Ltd., Registrar & Share Transfer Agent of the Company and register their email ids and other details, in order to receive a copy of AGM Notice, Annual Report and login details for remote voting/e-voting through email and those holding shares in demat form are requested to contact their respective Depository Participant (DP), for the aforesaid purpose and follow the process advised by DP. In case of any query you may write to Investor Services at investor.services@educomp.com or swapann@linkintime.co.in

For Educomp Solutions Limited MAHENDER KHANDELWAL

TAKEN ON RECORD

Date: February 17, 2024 CARETAKER RESOLUTION PROFESSIONAL OF Place: New Delhi Delhi EDUCOMP SOLUTIONS LIMITED REGISTRATION NUMBER:-IBBI/IPA-001/IP-P00033/2016-17/10086

YES BANK LIMITED

YES BANK Regd. & Corporate Office: Yes Bank House, Off Western Express Highway, Santacruz East, Mumbai - 400055 CIN: L65190MH2003PLC143249, E-mail: communications@yesbank.in, Website: www.yesbank.in

POSSESSION NOTICE (U/s. Rule 8 (1) - for immovable property)

The undersigned being the Authorized Officer of YES Bank Ltd. under the provisions of the Securitization an Reconstruction of Financials Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Sec.13(12) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued deman notices calling upon the respective borrowers mentioned hereunder to repay the amounts mentioned in th respective notices U/s. 13(2) of the said Act within a period of 60 days.

The respective borrowers having failed to repay the said amounts, notice is hereby given to the borrowers and public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers onferred on me under Sec. 13(4) of the said Act read with Rule 9 of the said Rules. The respective borrowers in particular and public in general are hereby cautioned not to deal with the said properties

and any dealing with these properties will be subject to the charge of the YES Bank Ltd. for the respective amou

entioned herein below along with interest thereon at contracted rate.						
).	Name of Borrower	Loan A/c. No.	Description of the Mortgaged property		Date of Demand Notice Date of Repossession	
	(1) M/s Harish and Company (Borrower) (2) Shailendra Kumar Gupta (Guarantor), (3) Neelam Gupta (Guarantor), (4) Late Rajeshwari Gupta through her legal heirs (Mortgagor)	07068460 0000150	Admeasuring 95.99 sqmts Mohalla Saray Khalsa Tehsil and Dist. Moradabad U.P. Boundaries: East- House of Jagganath Pal, West- Road 1.20 mtr wide thereafter House of A.N. Bashana, North-House of Kasturi Devi, South-Road 3 Mts wide	(Rs. Sixty Five Lakh Ninty Three Thousand - Three Hundred	04/08/2023 15/02/2024	


This is to bring to your attention that under Sec.13(8) of SARFAESI Act, where the amount of dues of the secured creditor together with all costs, charges and expenses incurred by secured creditor is tendered to the secured creditor at any time before the date of publication of notice for the public auction/ tender/ private treaty, the secured asset shall not be sold or transferred and no further steps shall be taken for transfer or sale of that secured asset.

Date: 16/02/2024 Place: Moradabad (U.P.)



BRANCH: SAM LUDHIANA, 165-INDUSTRIAL AREA A, CHEEMA CHOWK LUDHIANA, PH. NO. 0161-2935587

PUBLIC NOTICE ON WILFUL DEFAULTERS t is Hereby notified to the public at large that below mentioned suspended Directors and Guarantors of Borrower Company M/s Samra Industries Ltd. (Presently known as M/s Harmani Agro Export Ltd. (borrower Company) have failed and wilfully neglected to pay the amount which are liable towards repayments of their above loan account to Indian Bank, SAM Branch, Ludhiana. Hence we declare the following persons as "Wilful Defaulters" in terms of Bank's/RBI's extant rules and regulation, complying




Mr. Bipan Pal











Mr. Bipan Pal Singh (Director), Village-Middu Khera Tehsil-Muktsar, Distt. Muktsar-1512119 (PB)

Mr. Rajveer Singh Samra (Director), C/o M/s Samra Industries Ltd., Sadiq Road, Faridkot-151203 (PB). Mr. Taranveer Singh Grewal (Director), Village-Jhoke Hari Har, Distt. Ferozpur-152001 (PB).

Mr. Satvir Sharma (Director), H. No. 52, Ward No. 5, Part-1, Balvir Basti, Faridkot-151203 (PB)

Mr. Chhittar Mal Saini (Director), Village-Dhani Maliyon Ki Nathusar, Tehsil Shrimadhopur, District

Outstanding Amount: Rs. 8,02,59,997.38 amount due as on 20.11.2022 plus further intt. and exp. thereor Hence in the interest of the public it is informed and cautioned that no person shall deal with any of the properties of the above named suspended Partner/Guarantor and Mortgagor as a huge Sum is ecoverable from the aforesaid debtors.

DATE: 19.02.2024, PLACE: LUDHIANA

BRANCH MANAGER

खोया और पाया

रीता शर्मा निवासी 724/387, मुल्तानी चौक, हिसार के नाम प्लैट नंबर 302, टावर-।, सन शाइन काउंटी, सोनीपत (हरियाणा) के साथ संबंधित दस्तावेजों की फाइल, जिसमें उक्त फ्लैट के संबंध में आवेदन, आबंटन पत्र, सभी भुगतान रसीदें, कब्जा पत्र, कोई बकाया नहीं पत्र और अन्य संबंधित कागजात शामिल हैं, सुभाष नगर, नई दिल्ली में सफर के दौरान खो गए हैं।

PUBLIC NOTICE NOTICE is hereby given that the below mentioned Authorised Person is no longer affiliated as Authorised Person of Kotak Securities Limited.					
Authorised Trade Person Name Name		Exchange Registration Numbers of Authorised Person	Address of Authorised Person		
GIRAJESH KUMAR MAURYA	GIRAJESH KUMAR MAURYA	NSE - AP0291553951 BSE - AP01067301148849 MCX - 157797	713 VILLAGE KATOKHAR HASWAPUR AMBEDKAR NAGAR AGRA 224143		

Please note that above mention Authorised Person (AP) is no longer associated with us. Any person nenceforth dealing with above mention AP should do so, at their own risk. Kotak Securities Ltd. shall no be liable for any such dealing. In case of any queries for the transactions till date, Investors are requested or inform Kotak Securities Ltd. within 15 days from the date of this notification, failing which it shall be deemed that there exists no queries against the above mentioned AP.

deemed that there exists no quienes against the above mentioned AP.

kotak [®] Kotak [®] Securities Limited. Registered Office: 27 BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla
No.: +22 43360000, Fax No.: +22 67132430. Website: www.kotak.com / www.kotaksecurities.com
No.: +22 43360000, Fax No.: +22 67132430. Website: www.kotaks.com / www.kotaksecurities.com
Correspondence Address: Infinity IT Park, Bldg, No 21, Opp. Film City Road, A K Vaidya Marg, Malad
(East), Mumbai 400097. Telephone No: 42856825. SEBI Registration No: INZ000200137(Member of
NSE, BSE, MSE, MCX & NCDEX), AMFI ARN 0164, PMS INP000000258 and Research Analyst
INH000000586. NSDL/CDSL:: IN-DP-629-2021. Compliance Officer Details: Mr. Hiren Thakkar Call: 022
-42858484, or Email: ks.compliance@kotak.com.

💶 एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड CIN: L65929HR1985PLC033936

पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया, सैक्टर-32, गुरूग्राम-122001, हरियाणा फोन: 0124-4675500. फैक्स नं.: 0124-4370985 ई-मेल : corporate@hbstockholdings.com, वेबसाइट : www.hbstockholdings.com

असाधारण सामान्य बैठक की सूचना

पिय सदस्यगण

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड** ("कम्पनी") के सदस्यों की एक असाधारण सामान्य बैठक ("ईजीएम"), **सोमवार, 11 मार्च, 2024 को अप. 03.00 बजे**, ईजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु, कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों एवं तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और (जाबानायन) के सानू प्रावधाना स्वर्धाय नियम । यस रावा रावा सवा (सूचायन सावाय जार फ्रकटीकरण अधेक्षाए) विनियमावली, 2015 ('सेबी सूचीयन विनियमावली') के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांकित 15 जून, 2020, गरिपत्र संख्या ३३ / २०२० दिनांकित २८ सितम्बर, २०२०, परिपत्र संख्या ३९ / २०२० दिनांकित ३१ दिसम्बर, २०२०, परिपत्र संख्या १०/२०२१ दिनांकित २३ जून, २०२१, परिपत्र संख्या २०/२०२१ दिनांकित ०८ दिसम्बर, २०२१, परिपत्र संख्या ०३/२०२२ दिनांकित ०५ मई, २०२२, परिपत्र संख्या 11 / 2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 तथा परिपत्र संख्या 09 / 2023 दिनांकित 25 सितम्बर, 2023 और मारतीय प्रतिनूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों (एतद्पश्चात सामृहिक रूप से "परिपत्र" संदर्भित किए गए हैं) के अनुपालन में, किसी उभय स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

चूंकि बैठक वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, अतः ईजीएम के लिए परोक्षी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

ईजीएम की सुचना इलेक्ट्रॉनिक विधि से उन सभी सदस्यों को भेजी जा चुकी है, जिनका ई–मेल वता **बृहस्पतिवार, 15 फरवरी, 2024** को कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपँट्स (डीपी) के पास पंजीबद्ध / उपलब्ध है ।

अधिनियम की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित, व नियम संख्या 20 तथा सेबी सूचीयन विनियमावली के विनियम 44 और ऊपर वर्णित परिपत्र(त्रॉ) के अनुपालन में सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीँएम) के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने, ईजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से (आएपाएम) के मार्थन से इंजाएन में मार्थ कर , इंजाएन से उच्छा एमार इन्याटन के मार्थन से इतेक्ट्रॉनिक विधि से और इंजीएम के वीरान ई–वोटिंग के मार्थम से वोट डालने हेंतु सुविधा, अधिकृत एजेन्सी, **नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)** के जरिये उपलब्ध कराई जा रही है।

रिमोट ई-वोटिंग/ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और ढंग तथा वीसी /ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने हेत् अनुदेश ईजीएम की सूचना में दिए गए

जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट (पार्टिसिपैंट्स) के पास पंजीकृत नहीं करवाया गया है, कृपया ई-वोटिंग के लिए लॉगइन विवरण प्राप्त करने के लिए नीचे दिए अनुदेशों के अनुसार उसको पंजीकृत करवाने के लिए निम्न अनुदेशों का अनुसरण करें

सदस्यों से अनुरोध है कि ई-वोटिंग यूजर आईडी एवं पासवर्ड, ईजीएम की भौतिक धारण

सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य हेतु कम्पनी के रिजस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट (आरटीए), आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के पास investor.hb@rcmcdelhi.com पर एक अनुरोध फोलियो नंबर शेयरधारक के न के उल्लेख सहित शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (फ्रंट और बैक), पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति और सदस्य के पता प्रमाण के समर्थन में निम्नलिखित किसी एक दस्तावेज नामतः आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, वोटर कार्ड, पासपोर्ट अथवा उपयोगिता बिल की स्व—सत्यापित स्कैन प्रति सहित भेजें। डीमैट कृपया अपना ई-मेल पता / बैंक खाता विवरण अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स

(डीपी) के पास अद्यतन करवाएं।

सभी सदस्यों को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि :

क) ईजीएम की सूचना में सूचीबद्ध विशेष व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिये मतदान द्वारा किया जाएँगा

ख) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान शुक्रवार, 08 मार्च, 2024 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगा ग) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान रिववार, 10 मार्च, 2024 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगा। इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा एनएसडीएल द्वारा निषेध कर

 सदस्यों के ई-वोटिंग अधिकार कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के प्रदत्त मृत्य के अनुपात में होंगे। कंपनी के वह श्रेयर धारक जिनके पास **कट-ऑफ तिथि अर्थात** सोमवार, 04 मार्च, 2024 को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर होंगे, वह ईजीएम से पहले

रिमोट ई-वोटिंग द्वारा / ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर सकते हैं : अरे कोई व्यक्ति कंपनी के शेयर का अधिग्रहण सचना के प्रेषण के पश्चात करता है और कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात सोमवार, 04 मार्च, 2024 को

शेयरधारक है तो वह सूचना में वर्णित लॉगइन प्रक्रिया का पालन कर संकता है। स्य आगे नोट करें कि :

किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद सदस्य को उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

जो सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर चुके हैं, वीसी / ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु उनको बैठक में पुनः मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। iii) वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा

डिपोजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में अभिलिखित होगा वह रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने तथा ईजीएम में ई—वोटिंग द्वारा मतदान करने हेतु योग्य होगा।

iv) ईजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट <u>www.hbstockholdings.com</u> स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजेज) नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.nseindia.com</u> तथा एनएसडीएल की वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर उपलब्ध हैं।

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के संबंध में किसी भी शिकायत की स्थिति सदस्यगण सीघे सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक – एनएसडीएल, ई-मेल आईडी : evoting@nsdl.co.in से सम्पर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800–1020–990 पर कॉल कर सकते हैं। सदस्यगण कम्पनी सचिव को भी ई—मेल आईडी : corporate@hbstockholdings.com पर लिख सकते हैं। कृते एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड

रीमा मिगलानी तिथि : 17 फरवरी, 2024 (कम्पनी सचिव) स्थान : गुरूग्राम M. No.: ACS-45762

💶 एचबी एस्टेट डवलपर्स लिमिटेड CIN: L99999HR1994PLC034146

पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया, सैक्टर-32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा फोन: 0124-4675500, फैक्स नं.: 0124-4370985 ई-मेल : corporate@hbestate.com, वेबसाइट : www.hbestate.com

असाधारण सामान्य बैठक की सूचना

प्रिय सदस्यगण.

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि **एचबी एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड** ("कम्पनी") के सदस्यों की असाधारण सामान्य बैठक ("ईजीएम"), **सोमवार, 11 मार्च, 2024 को मध्या. 12.00 बजे**, ईजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु, कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों एवं तदधीन विरचित नियमों तथा सेवी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावली, 2015 ("सेबी सूचीयन विनियमावली") के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 14 / 2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांकित 15 जून, 2020, परिपत्र संख्या ३३ / २०२० दिनांकित २८ सितम्बर, २०२०, परिपत्र संख्या ३९ / २०२० दिनांकित ३१ दिसम्बर, 2020, परिपत्र संख्या 10/2021 दिनांकित 23 जून, 2021, परिपत्र संख्या 20/2021 दिनांकित 08 दिसम्बर, 2021, परिपत्र संख्या 03/2022 दिनांकित 05 मई, 2022, परिपत्र संख्या 11/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 तथा परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांकित 25 सितम्बर, 2023 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों (एतद्पश्चात सामूहिक रूप से "परिपत्र" संदर्भित किए गए हैं) के अनुपालन में, किसी उमय स्थान पर सदस्यों की मौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स "ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

चूंकि बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, अतः ईजीएम के लिए परोक्षी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

ईजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक विधि से उन सभी सदस्यों को भेजी जा चुकी है, जिनका ई-मेल पता **बृहस्पतिवार, 15 फरवरी, 2024** को कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपॅट्स (डीपी) के पास

अधिनियम की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित, कं नियम संख्या 20 तथा सेबी सूचीयन विनियमावली के विनियम 44 और ऊपर वर्णित परिपन्न(त्रों) के अनुपालन में सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने, ईजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से . इलेक्टॉनिक विधि से और ईजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने हेतु सुविधा, अधिकृत एजेन्सी, **नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)** के जरिये उपलब्ध कराई जा रही है।

रिमोट ई—वोटिंग / ईजीएम के दौरान ई—वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और ढंग तथा वीसी / ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने हेतु अनुदेश ईजीएम की सूचना में दिए गए

जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट (पार्टिसिपैंट्स) के पास पंजीकृत नहीं करवाया गया है, कृपया ई-वोटिंग के लिए लॉगइन विवरण प्रोप्त करने के लिए नीचे दिए अनुदेशों के अनुसार उसको पंजीकृत करवाने के लिए निम्न अनुदेशों का अनुसरण करे

भौतिक सदस्यों से अनुरोध है कि ई-वोटिंग यूजर आईडी एवं पासवर्ड, ईजीएम की सूबना प्राप्त करने के उद्देश्य हेतु कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट (आरटीए), आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के पास investor.hb@rcmcdelhi.com पर एक अनुरोध फोलियो नंबर, शेयरधारक के नाम के उल्लेख सहित शेयर प्रमाणपत्र की स्केन प्रति (फ्रंट और बैक), पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्केन प्रति और सदस्य के पता प्रमाण के समर्थन में निम्नलिखित किसी एक दस्तावेज नामतः आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, वोटर कार्ड, पासपोर्ट अथवा उपयोगिता बिल की स्व—सत्यापित स्कैन प्रति सहित भेजें।

कृपया अपना ई—मेल पता / बैंक खाता विवरण अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपँट्र (डीपी) के पास अद्यतन करवाएं। डीमैट घारण

सभी सदस्यों को एतदृद्वारा सूचित किया जाता है कि

क) ईजीएम की सूचना में सूचीबद्ध विशेष व्यवसाय(यों) का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों व जरिये मतदान द्वारा किया जाएगा

ख) रिमोट ई—वोटिंग द्वारा मतदान **शुक्रवार, 08 मार्च, 2024 को सुबह 09.00 बजे** शुरू होगा ग) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान रविवार, 10 मार्च, 2024 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगा। इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा एनएसडीएल द्वारा निषेध कर

 सदस्यों के ई—वोटिंग अधिकार कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के प्रदत्त म् के अनुपात में होंगे। कंपनी के वह शेयर धारक जिनके पास कट-ऑफ तिथि अर्थोत सोमवार, 04 मार्च, 2024 को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर होंगे, वह ईजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग द्वारा / ईजीएम के दौरान ई—वोटिंग द्वारा मतदान कर सकते हैं ;

 अ) यदि कोई व्यक्ति कंपनी के शेयर का अधिग्रहण सूचना के प्रेषण के पश्चात करता है और कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात सोमवार, 04 मार्च, 2024 को

शेयरधारक है तो वह सूचना में वर्णित लॉगइन प्रक्रिया का पालन कर सकता है। सदस्य आगे नोट करें कि

किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद सदस्य को

उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

ii) जो सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर चुके हैं, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु उनको बैठक में पुनः मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपोजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में अभिलिखित होगा वह रिमोट ई-वोटिंग की सविधा प्राप्त करने वीसी / ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने तथा ईजीएम में ई–वोटिंग द्वारा मतदान करने हेतु योग्य होगा।

iv) ईजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट <u>www.hbestate.com</u> स्टॉक एक्सचेंज नामतः बीएसई लिमिटेंड की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध हैं।

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के संबंध में किसी भी शिकायत की स्थिति सदस्यगण सीधे सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक – एनएसडीएल, ई—मेल आईडी : evoting@nsdl.co.in से सम्पर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800—1020—990 पर कॉल कर सकते हैं । सदस्यगण कम्पनी सचिव को भी ई—मेल आईडी : corporate@hbestate.com पर लिख सकते हैं।

> कृते एचबी एस्टेट डवलपर्स लिमिटेड राधिका खुराना

तिथि : 17 फरवरी, 2024 (कम्पनी सचिव) M. No.: A-32557 स्थान : गुरूग्राम

पूर्वोत्तर रेलवे

खुली ई—निविदा सूचना संख्या SRDEE-TRD-IZN-2023-24-19 Dated 15.02.2024

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर/टीआरडी, पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु "खुली" ई-निविदा आमंत्रित करते हैं। क्र.सं. 1; कार्य का नामः रेलवे फाटक सं. 248 स्पेशल (एन.ई.आर.) एवं रेलवे फाटक सं. 359 स्पेशल (एन.आर.) पर एल.एच.एस. कार्य हेतु टीआरडी से संबंधित कार्य।; टेंडर रेफ्रेंस नं.: SRDEE-TRD-IZN-2023-24-T19; कार्य की अनुमानित लागत (₹ में): ₹24,65,151.99; अमानत राशि/बिड सिक्योरिटी: ₹49,300/-; निविदा प्रपत्र का मूल्य (₹ में); 0.00/-; निविदा बंद होने की एवं समयः 08.03.2024 को 11:00 बजे; **कार्य पूरा करने की अवधिः** 06 माह।
• खुली ई—निविदा दिनांक 08.03.2024 को 11:00 बजे तक जमा कर सकेंगे। • पूर्ण विवरण जानने हेतु एवं निविदा की प्रस्तुति करने के लिए भारतीय रेल की वेबसाइट

वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर/टीआरडी मुजाधि / विद्युत—271 इज्जतनगर

www.ireps.gov.in पर देखें।

टेनों में बीडी / सिगरेट न पियें

शपथ पत्रसमक्ष :-

सक्षम अधिकारी महोदय,शपथपत्र ओर से राकेश नदंन सहाय पुत्र श्री दिनेश नदंन सहाय (आधार संख्या 9264 4531 4138) निवासी ए-116, डीवाईन ग्रेस सोसाइटी प्लाट न0-14/15 पाकेट-2, सै0-ओमेगा-1, ग्रेटर नोएडा गौतमबद्धनगर शपथ पर्वक ब्यान करता हूँ कि: यह कि शपथकर्ता उपरोक्त नाम व पता सब सत्य एवं सही है।

2. यह कि मेरी पुत्री कु रिमझिम नंदन सहाय (आधार संख्या 6735 9322 5813) की सही जन्म तिथि 12.3.2014 है।

3. यह कि मेरी पुत्री की जन्म तिथि जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण पत्र व सकन्य योजना मे जन्म तिथि 12.03.2014 है जो कि सही है. लेकिन पासपोर्ट में जन्म तिथि 17.09.2014 अंकित है जोकि गलत है।4. यह कि मैं अपनी पुत्री कीं जन्म तिथि पासपोर्ट मे सही कराने के लिए राष्ट्रीय समाचार पत्र में गजट करवाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

सत्यापन:- यह कि मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि शपथ पत्र की उपरोक्त धारा 1 ता 5 मेरे निर्ज ज्ञान में सत्य व सही है कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरा साक्षी है।

दिनांक -16/02/2024 शपथकर्ता

सामान्य जन सूचना

यह सभी सम्बंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है की फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टिट्यूट (एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टिट्यूट एंड रिसर्च सेंटर लिमिटेड) ओखला रोड, नई दिल्ली - 110025 निम्नलिखित अभिलेख (चिकित्सा) नष्ट करने जा रहा है जिसमे मृतक, एमएलसी, ट्रांसप्लांट, व शिशु रोग के चिकित्सा अभिलेख नहीं है:-

क: बाह्यरोगी विभाग (ओपीडी)

1. निष्क्रिय चिकित्सा अभिलेख-2020 जिनका पंजीकरण नंबर 2067849 से 2166883 के मध्य (01.01.2020 से 03.10, 2020) है।

ख: अन्तरोगी विभाग (आईपीडी)

1. सामान्य डिस्वार्ज मामलों के चिकित्सा अभिलेख - 2017 जिनका भर्ती नंबर 351216 से 369629 है।

2. मतक मामलों के रेडियोलॉजी फिल्में - 2018

किसी भी रोगी, कानूनी परिचर और एजेंसी को भविष्य के सन्दर्भ के लिए सम्बंधित चिकित्सा अभिलेख को संरक्षित करने के लिए निचे दिए गए पते पर उचित माध्यम के दारा संपर्क करें। यह अधिसूचना समाचार पत्र में अधिसूचित तारीख से एक महीने की अवधि के लिए मान्य होगी।

नोट:- उपरोक्त सभी मेडिकल रिकॉर्ड नियमानुसार जारी किए जाएंगे।

डा. एस.सी. गुप्ता, एचओडी - मेडिकल रिकॉर्ड

फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टिट्यूट, ओखला रोड, ओखला, नई दिल्ली - 110025

[सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 17 के अनुसरण में] **Educomp** एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली राज्य" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशन

रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, एनसीटी दिल्ली और हरियाणा के समक्ष सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) और सीमित देयता भागीदारी नियम,

2009 के नियम 17 (4) के मामले में

लवदि फैशन एलएलपी ("एलएलपी") के मामले में जिसका पंजीकृत कार्यालय एल-1011, गली नंबर 24, शनि बाजार, संगम विहार, नई दिल्ली- 110080 में है आम जनता को एतहवारा नोटिस दिया जाता है कि एलएलपी के भागीदारों ने पंजीकृत कार्यालय L-1011, गली नंबर 24, शनि बाजार, संगम विहार, नई दिल्ली- 110080 में 17 फरवरी, 2024 के आयोजित बैठक में पारित संकल्प के संदर्भ में एलएलपी के सीमित देयता भागीदारी समझौते ("एलएलर्प समझौते") के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन की पृष्टि की मांग के लिए सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के साथ पठित सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 17 (4) के तहत कंपनी **रजिस्टार, एनसीटी दिल्ली और हरियाणा** को एक आवेदन करने का प्रस्ताव किया है ताकि एलएलपी अपने पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली राज्य" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में कंपनी रजिस्ट्रार-कानपुर के अधिकार क्षेत्र के तहत स्थानांतरित करने में सक्षम हो सके ।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हित की प्रकृति और आधार बताते हुए एक शपथ पत्न के साथ अपनी आपत्तिय पंजीकृत डाक से, नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एनसीटी दिल्ली और हरियाणा, चौथी मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली -110019 और एक प्रति के साथ एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय, एल-1011, गली नंबर 24, शनि बाजार, संगम विहार, नई दिल्ली-110080 पर भेज सकता है।

> लवदि फैशन एलएलपी के लिए और उसकी ओर से अंजू अग्रवाल नामित भागीदार (डीपीआईएन-01830282)

ANAND RATHI

दिनाँक: 19/02/2024

स्थान: नई दिल्ली

आनन्द राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड

जैसा कि, आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) और प्रतिभति हित (पूर्वर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों वे उपयोग में विचीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा 2 के तहत कर्जदारों (विवरण विशेष रूप से नीचे दी गई तालिका में उल्लेख किय गया है, इसके बाद कर्जदार) को मांग सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर मांग सूचना उल्लिखित राशि और ब्याज की संविदात्मक दर पर भावी ब्याज के साथ लागत और शल्क एवं मांग सच की तारीख से भुगतान और/या एआरजीएफएल द्वारा वसूली की तारीख तक देय अन्य राशि (यदि कोई हो का भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचना (विवरण नीचे तालिका में विशेष रूप से उल्लेखित है, इसवे बाद मांग सचना) जारी की है (इसके बाद देय राशि)।

कर्जदार और सह-कर्जदार देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, अतः एतद्वारा नीचे उल्लिखित कर्जदार को विशेष रूप से और आम जनता को सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षर ने प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम 8 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उर तहत परिभाषित किया गया है) का नीचे विशेष रूप से उल्लिखित तिथि पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है विशेष रूप से कर्जदार और सह-कर्जदार(रों) तथा आम जनता को एतदवारा आगाह किया जाता है कि र संपत्तियों/प्रतिभृत आस्तियों के साथ सौदा न करें और संपत्तियों/प्रतिभृत आस्तियों के साथ कोई भी लेनदेन एआरजीएफएल द्वारा भुगतान और/या वसुली की तारीख तक देय लागत और शुल्क और अन्य देय राशि (यदि कोई हो) सहित बकाया राशि (विशेष रूप से यहां नीचे उल्लिखित) के साथ-साथ आगे के भावी ब्याज की संविदात्मक दर पर ब्याज के साथ आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। प्रतिभृत संपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के संबंध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

कर्जदार का नाम पता: श्री साधु सिंह (कर्जदार), टी-31, प्रथम तल, राजौरी गार्डन, टैगोर गार्डन, दिल्ली-सह-कर्जदार का नाम पता: 1. श्री प्रदीप सिंह, 2. श्रीमती सतवन्त कौर, टी-31, प्रथम तल, राजौरी गार्डन,

टैगोर गार्डन, दिल्ली-110027 यथा प्रयोज्य भावी ब्याज सहित मांग सुचना के अनुसार मुल बकाय 74,54,042 लम्बित ईएमआई गशि ब्रोकन पीरियड ब्याज अठारह हजार तीन सौ पैतालीस मात्र) 17,755 मांग सूचना की तिथि : 11 दिसम्बर, 2023 विधिक प्रभार 16,100 ऋण अनुबन्ध सं. : APPL00000831 इंएमआई बाउंस एवं अन्य प्रभार कब्जे की तिथि : 17 फरवरी, 2024 79,18,345

प्रतिभूत संपत्ति का विवरण: संपत्ति का विवरण: प्रथम तल, छत/टेरेस के अधिकार रहित, सम्मत्ति सं. टी–31 पर निर्मित, क्षेत्रफल माप 213.3/10 वर्ग गज, राजौरी गार्डन, दिल्ली-110027 में स्थित, सीमाएं इस प्रकार हैं पूर्व : सम्मत्ति सं. टी–30, पश्चिम : सम्मत्ति सं. टी–32, उत्तर : सर्विस लेन, दक्षिण : रोड

ह./-, आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड अधिकृत अधिकारी दिनांक: ू 17 फरवरी, 2024

एडयुकॉम्प सॉल्युशन्स लिमिटेड CIN: L74999DL1994PLC061353

पंजी. कार्यालय : एल–314 (भूतल और प्रथम तल) गली नंबर–7, महिपालपुर

ई—मेल: investor.services@educomp.com, वेबसाइट: www.educomp.com

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आयोजित की जाने वाली 29वीं वार्षिक सामान्य बैठक

रतदद्वारा सचना दी जाती है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए एडयकॉम्प सॉल्यशन लेमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 29वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") **शुक्रवार, 15** मार्च, 2024 को पूर्वा. 11.30 बजे, कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं 14 / 2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, 17 / 2020, 20 / 2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020 02/2022 दिनांकित 05 मई, 2022, 10/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 तथा 09 / 2023 दिनांकित 25 सितम्बर, 2023 ("एमसीए परिपन्न") तथा भारतीय प्रतिभूति एव वेनिमय बोर्ड द्वारा जारी सेबी परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी–2 पी/सीआईआर/2023/167 दिनांकित 7 अक्टूबर, 2023 के साथ पठित सेबी, एचओ / सीएफडी / पीओडी–2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांकित 5 जनवरी 2023, सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांकित 13 मई, 2022, परिपन्न सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/ सीआईआरआईपी/2021/11 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 और परिपन्न सं. सेबी /एचओ /सीएफडी/सीएमडी 1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 ('सेबी परिपत्र') तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्राववानों और तदधीन विरचित नियमों के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेन्स सुविधा ("वीसी")/ अथवा अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओवीएएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी ।

एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम के आयोजन की सूचना सहित, यथा समय, केवल ई—मेल द्वारा उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी. जिनका ई—मेल पता कम्पनी / रजिस्टार एवं शेयर टांसफ एजेन्ट ("आरटीए") / डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स ("डीपी") के पास पंजीबद्ध है। उपरोक्त दस्तावेज <u>www.educomp.com</u> पर, स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट्स<u>www.bseindia.co</u>n एवं <u>www.nseindia.com</u> पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

रजीएम के आयोजन की सूचना में वीसी / ओवीएएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने हेतु अनुदेश तथा रिमोट ई—वोटिंग में प्रतिभागिता अथवा एजीएम में ई—वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विधि दी गई है। सूचना में, भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों के धारक शेयरधारकों, जिनके द्वारा अपना ई-मेल पता कम्पनी अथवा अपने संबंधित डीपी के पास पंजीबद्ध नहीं करवाया गया है, के लिए लॉगइन क्रेडेन्शियल्स के संबंध में अनुदेश भी

वीसी/ओवीएएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कम्पर्न अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के प्रयोजन हेतु की जाएगी।

जिन सदस्यों के शेयर भौतिक रूप में हैं और अपनी ई—मेल आईडी ज / बैंक खाता विवरण पंजीबद्ध नहीं करवाया है, उनसे अनुरोध है कि एजीएम सूचना, वार्षिक रिपोर्ट की प्रति और रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग हेतु लॉगइन विवरण ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करने के क्रम में, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि., कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट, के पोर्टल <u>https://web.linkintime.co.in/KYC/index.html</u> पर जाएं और अपनी ई—मेल आईडी ज तथा अन्य विवरण पंजीबद्ध करवाएं तथा जिन सदस्यों के शेयर डीमैट रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रयोजनों हेतु अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट (डीपी) से सम्पर्क करें और डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया का अनुसरण करें। किसी संदेह की स्थिति में, आप <u>investor.services@educomp.com</u> अथव swapann@linktime.co.in पर इन्वेस्टर सर्विसेज को लिख सकते हैं।

कृते एड्यूकॉम्प सॉल्यूशन्स लिमिटेड महेन्द्र खंडेलवाल एड्यूकॉम्प सॉल्यूशन्स लिमिटेड के

तिथि : 17 फरवरी, 2024 स्थान : नई दिल्ली कार्यवाहक समाधान प्रोफेशनल REGISTRATION NUMBER:-IBBI/IPA-001/IP-P00033/2016-17/10086

്യ CSB Bank सीएसबी बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालयः श्रिसूर आंचलिक कार्यालयः प्रथम और दूसरा तल, सनातन धर्म वर्ल्ड युनिवर्सटी टस्ट.

20, साउथ पटेल नगर, मेट्रो पिलर नं. 193 के सामने, नई दिल्ली-110008 परिशिष्ट ।v—ए

[नियम 8(6) का प्रावधान देखें अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तिय

के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपित्तयों एतद्द्वारा द्वारा सर्व साधारण और विशेष रूप से कर्जदार(ओं) और जमानती(ओं) को सूचित किया जात

है कि प्रत्याभूत ऋणदाता को बंधक / प्रभारित अघोल्लिखित अचल संपत्ति जिसका **सीएसबी बैंक** लिमिटेड, प्रत्याभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सांकेतिक कब्जा/सृजनात्मक कब्जा लिय गया है, कर्जदार- मेसर्स आर.बी. ओवरसीज (मागीदार फमी), सी-9/3, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110052 और जमानतियों- श्री हरीश चौहान, मेसर्स आर.बी. ओवरसीज का भागीदार सी-9/3, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110052 और <u>आवास पता</u>:- ए-58, अमृत नगर कोटला मुबारक, नई दिल्ली और श्रीमती ऊषा रानी पत्नी श्री हरीश चौहान, मेसर्स आर.बी. ओवरसीज की भागीदार, सी-9/3, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110052 और आवास पता:- ए-58, अमृत नगर, कोटला मुबारक, नई दिल्ली से सीएसबी बैंक लिमिटेड, जी36, भृतल, ब्लॉक जी, क्नाट प्लेस, नई दिल्ली को देय डब्ल्यूसीटीएल में दिनांक 30.11.2021 को रू. 5,11,12,100.76 (रुपये पाँच करोड़ ग्यारह लाख बारह हजार एक सौ और छिहत्तर पैसा मात्र) और 1.12.2021 से मासिक शेष -2% पीनल वार्षिक ब्याज के साथ 16.11% वार्षिक की दर से भविष्य की ब्याज सहित वसूली के लिए "जो है जहाँ है", "जहाँ है जैसी है" और "जो भी है" आधार पर दिनांक 21.03.2024 को बिक्री की जायेगी।

		(•• • • • • • • • • • • • • • • • • •	(೪. 4)			
1.	श्री हरीश चौहान द्वारा स्वामित्व साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1,	₹. 245.00	₹. 24.50			
	गाँव कोटला मुबारकपुर, अमृत नगर स्थित आवासीय संपत्ति	लाख	লাख			
	एमसीडी नं. 58 (अब 58ए के रूप में ज्ञात) जिसमें 4 मंजिला	4 मंजिला बिल्डिंग बेसमेंट सहित कुल बिल्ट				
	अप एरिया 4500 वर्ग फुट भूमि माप 100 वर्ग गज (कुल एरिया 200 वर्ग गज में से) खसरा नं.					
	121 का निर्धारक भाग, के सभी भाग व खंड के हक विलेख के जमा द्वारा बंधन।					
2.	श्री हरीश चौहान द्वारा स्वामित्व गाँव कोटला मुबारकपुर, अमृत नगर स्थित आवासीय संपत्ति एमसीडी नं. 58 का पुरा	रु. 55.00 लाख	रु. 5.50 लाख			
	दूसरा तल, खसरा नं. 121 का निर्धारक भाग, माप 900 वर्ग फुट के सभी भाग व खंड के हव विलेख के जमा द्वारा बंधन।					
	कुल	ক. 300.00 লাভ্ৰ	रु. 30.00 लाख			
	(अचल संपत्ति का विवरण)					

संपत्ति का विवरण

(i) श्री हरीश चौहान द्वारा स्वामित्व साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1, गाँव कोटला मुबारकपुर, अमृत नगर स्थित आवासीय संपत्ति एमसीडी नं. 58 (अब 58ए के रूप में ज्ञात) जिसमें 4 मंजिला बिल्डिंग बेसमेंट सहित कुल बिल्ट अप एरिया 4500 वर्ग फुट भूमि माप 100 वर्ग गज (कुल एरिया 200 वर्ग गज में से) खसर नं. 121 का निर्धारक भाग, के सभी भाग व खंड के हक विलेख के जमा द्वारा बंधन और **सीमाएँ:— पूर्व**ः रोड; उत्तर उक्त संपत्ति का शेष भाग (प्लॉट नं. 58 का भाग); पश्चिम: सर्विस लेन; दक्षिण: संपत्ति

(ii) श्री हरीश चौहान द्वारा स्वामित्व गाँव कोटला मुबारकपुर, अमृत नगर स्थित आवासीय संपत्ति एमसीडी नं. 58 का पूरा दूसरा तल, खसरा नं. 121 का निर्धारक भाग, माप 900 वर्ग फुट के सभी भाग व खंड के हक विलेख के जमा द्वारा बंधन और **सीमाएँ:- पूर्वः** रोड; **उत्तरः** संपत्ति नं. 59; **पश्चिमः** सर्विस लेन; **दक्षिण:** प्लॉट नं. 58ए (प्लॉट नं. 58 का भाग)

नई दिल्ली शाखा में निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 20.03.2024 समय अप. 5.00 पूर्व तक है और मुहरबंद निविदाएँ सीएसबी बैंक लिमिटेड, जी36, भूतल, ब्लॉक जी, क्नाट प्लेस, नई दिल्ली में उपलब्द / माग ले रहे निविदाकारों की उपस्थिति में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 21.03.2024 को समय पूर्वा. 11.30 को खोली जायेंगी। बिक्री के विस्तृत निबंधन व शर्तों के लिए कृपया सीएसबी बैंक लिमिटेड,

प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट <u>www.csb.co.in</u> पर दिया लिंक देखें। दिनांकः 17.02.2024 प्राधिकृत अधिकारी स्थानः नई दिल्ली (सीएसबी बैंक लिमिटेड)

इंडियन बैंक Indian Bank शाखाः एसएएम लुधियाना, १६५-इंडस्ट्रियल एरिया ए, चीमा चौक, लुघियाना, फोन नंबर 0161-2935587

हस्ता./

एग्रो एक्सपोर्ट लि. (कर्जदार कम्पनी) के निम्नवर्णित निलम्बित निदेशक और गारंटर, जो इंडियन बैंक, एसएएम शाखा, लुधियाना मे उनके उपरोक्त ऋण खाते में बकाया राशि चुकाने हेतु जिम्मेदार हैं, बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं और जानबूझकर उपेक्षा की है। अतएव हम बैंक के/आरबीआई के वर्ततान नियमों और विनियम के निबन्धनों में, उसमें निर्धारित सम्यक् प्रक्रिया का पालन करते हुए, निम्नवर्णित व्यक्तियों को **"इरादतन चूककर्ता" घोषित करते हैं : "इरादतन चूककर्ता" घोषित व्यक्तियों का विस्तृत विवरण**


















श्री राजवीर सिंह सामरा (निदेशक), सी / ओ मैसर्स सामरा इंडस्ट्रीज लि., सादिक रोड, फरीदकोट–151203 (पंजाब) **श्री तरनवीर सिंह ग्रेवाल (निदेशक),** ग्राम—झोके हरि हर, जिला फिरोजपुर—152001 (पंजाब)

श्री सतवीर शर्मा (निदेशक), एच. नंबर 52, वार्ड नंबर 5, पार्ट-1, बलवीर बस्ती, फरीदकोट-151203 (पंजाब)

श्री छीत्तर मल सैनी (निदेशक), ग्राम–ढाणी मालियों की, नाथूसर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला

बकाया राशि : रू. **8,02,59,997.38** राशि दिनांक 20—11—2022 तक बकाया + उस पर आगे ब्याज और खर्चे अतः लोक हित में, यह सूचित किया जाता है और सावधान किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति निलम्बित पार्टनर/गारंटर तथा बंधकदाता की किसी भी सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करें, क्योंकि उपरोक्त कर्जदारों र भारी राशि वसूल की जानी है।

तिथि : 19-02-2024, स्थान : लुधियाना

शाखा प्रबंधक

यस बेंक लिमिटेड YES BANK पंजीकृत एवं कॉपोरेट कार्यालय : यस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सांताकुज पूर्व, मुम्बई - 400055 CIN: L65190MH2003PLC143249, ईमेल : communications@yesbank.in, वेबसाइट: www.yesbank.in

आधिपत्य सूचना [नियम – 8(1) अचल संपत्ति हेतु]

यस बैंक लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्गठन और प्रतिभति हिर प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन एवं प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अनुसरण में, नीचे विस्तार में वर्णित ऋणी को मांग सूचना पत्र जारी किया था जिसके तहत उक्त 13(2) घारा के अंतर्गत सूचना के प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था। ऋणी द्वारा संपूर्ण धनराशि र चुकाए जाने पर, एतद्दवारा ऋणी को एवं सामान्य रूप से जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों वे नैयम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उन्हें दिए गए अधिकारों के अनुसरण में यहाँ वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणी एवं सामान्य रूप से जनसाधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि संपत्ति के साथ किसी प्रकार का सौदा न करें एवं संपत्ति के साथ किसी प्रकार का सौदा यहाँ वर्णित राशि का उस पर अनुबंधित दर से ब्याज एवं लागत के भुगतान के साथ यस बैंक लिमिटेड को चुकाए जाने के अधीन किया जाएगा।

सं क्रं.	ऋणी का नाम	ऋण खाता संख्या	बंधक संपत्ति का विवरण	नोटिस राशि (रु.)	मांग सूचना दि. पुन: कब्जे की दिनांक
1	(1) मेसर्स हरिश एंड कंपनी (ऋणी) (2) शैलेन्द्र कुमार गुप्ता (जमानतदार) (3) नीमल गुप्ता (जमानतदार) (4) स्व. राजेश्वरी गुप्ता इनके कानूनी वारिसों द्वारा (बंधककर्ता)	07068460 0000150	मोहल्ला सराय खालसा तहसील एवं जिला मुरादाबाद उ.प्र., माप 95.99 वर्गमीटर, चर्तुःसीमा - पूर्व : जगन्नाथ पाल का मकान, पश्चिम : सड़क 1.20 मीटर चौडी, उसके बाद ए.एन. बशाना का मकान, उत्तर- कस्तुरी देवी का मकान, दक्षिण : सड़क 3 मीटर चौड़ी	₹ 65,93,336/- (रुपये पैसठ लाख तिरान्चे हजार तीन सौ छत्तीस मात्र) दिनांक 30.07.2023 तक	04/08/2023 15/02/2024

अधिनियम की धारा 13(8) में अपेक्षित अनुसार, हमारे द्वारा खर्च किए गए सभी लागत, प्रभार एवं व्यय के साथ हमारी बकाया राशि का भुगतान, बिक्री या स्थानांतरण की निर्दिष्ट तिथि से पहले किसी भी समय कर दिया जाता है, तो हमारी ओर से प्रतिभूत संपत्ति का विक्रय या . स्थानांतरण नहीं किया जाएगा एवं उक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति के स्थानांतरण या बिक्री के लिए हमारी ओर से आगे कोई कदम नहीं उठाय

दिनांक: 16/02/2024 प्राधिकृत अधिकार्र स्थान : मुरादाबाद (उ.प्र.) यस बैंक लिमिटेड